

## (A Joint Venture With USHIN LTD. JAPAN)

G.P. 14, HSIIDC INDL. ESTATE, SECTOR-18, GURGAON - 122 001 HARYANA (INDIA)

Phone: 0124-4623400 Fax: 0124-4623403 E-mail: info@jushinindia.com Website: www.jpmgroup.co.in CIN: L52110DL1986PLC025118

Code: 513252

February 02, 2022

**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement on Notice of transfer of equity shares of the Company to IEPF

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published in English and regional language newspapers titled - "Notice (Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)" whose dividend are remained unclaimed after expiry of seven years for the financial year 2013-14.

Please take the same on your records.

Thanking you Yours Faithfully

For Jay Ushin Limited For Jay Ushin'i imited

Company Secretary

Jyoti Kataria

**Company Secretary** 

M.No. 55376

Copy to:

**RCMC Share Registry Private Limited** 

B-25/1, Ist Floor Okhla Industrial Area,

Phase - 2, New Delhi - 110020

#### DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) ( Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s). Description of secured asset (immovable property) /Guarantor (s) Date & Amount Mr. Deepak, Mrs. Anaro All that piece and parcel of the property being 29-Jan-2022 Rs. 28,42,166/-Devi, Western Dance and UGF Front, Plot No-S-161, area measuring (Rupees Twenty Eight Lakh 100 sq. yds., Param Puri, Uttam Nagar New Fitness Club (Prospect No. Forty Two Thousand One IL10111400) Hundred Sixty Six Only) 28-Jan-2022 Rs. 23.90.338/-Mr. Somdutt Choudhary, All that piece and parcel of the property being

(Rupees Twenty Three Lakh

Ninety Thousand Three

Hundred Thirty Eight Only)

Mrs. Ritu Kumari (Prospect

No. IL10112786)

Pup |

Central Delhi, Delhi, India, 110084 If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi Date: 01-02-2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

#### PUBLIC NOTICE

This is to notify all concerned that Ministry of Finance, Government of India, vide Notification No. 14/2021 Central Tax (Rate) dated 18.11.2021 has increased the GST on footwear from 5% to 12% having sale price less than Rs. 1000.00. The aforesaid increase in GST will come into effect from 01.01.2022.

Pursuant to the provision of Legal Metrology Act 2009 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 (as amended up to date), We BFL Brandfolio Pvt Ltd hereby inform the public at large including our customers, dealers, distributors, that there shall be an increase in the sale price of all the footwear having sale price value less than Rs. 1000.00 to the extent of increase in GST i.e., 5% to 12% in terms of aforesaid notification. All the products. having sale price value less than Rs. 1000.00, shall be sold with revised MRP (inclusive of all taxes) along with the old MRP label w.e.f. 01.01.2022.

By this notice the public at large is notified and made aware about the increase in sale price of footwear less than Rs. 1000.00 necessitated by the Notification No. 14/2021 Central Tax (Rate) dated 18.11.2021

BFL BRANDFOLIO PVT LTD Pioneer Square, Ground Floor, Unit No 23, Sector 62. Gurugram - 122102, Haryana, India.

> punjab national bank CIRCLE SASTRA BATHINDA ......Together for the better

Plot No 445, Phase -III, Model Town, Bathinda POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Outstanding

Possession

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the

Pvt No. 4,Ff Rhs, area measuring 62.5 SQ.

YDS., Without Roof Rights Out Of The Khasra

No. 845 Extended Lal Dora Of Village Burari,

respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice. The borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession

of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each account. The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab

National Bank, for the amount and interest thereon. The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s). Name of the Branch/ Date of Date of Amount

Description of the Borrower(s)/Guarantor Demand Notice Property/ies Mortgaged B/O · KIKKAR BAZAR BATHINDA (3458) EM of one triple stories commercial 21.05.2021 29.01.2022 Rs. 66,28,410/-Borrower: 1. M/S building MC No. 4331, Kikkar (Rupees Sixty Six Lakh Twenty Eight Gupta Sons, Kikkar Bazaar, Bathinda measuring 70Sq Thousand Four Hundred Ten Only) as on Bazaar, Bathinda, Yards, vide RTD No. 4755 dated 31,03,2021 with future interest w.e.f. 31.03.2021 costs, charges and other

Punjab 151001. 2. Mr. 20.12.1996. Amrit Pal S/o Kastur Chand Gupta (Partner), M/S Gupta expenses thereon. (Less Recovery Sons, House No. 391, Green City Phase 2, Bathinda, Punjab affected thereafter, if any) 151001. 3. Mr. Goldy Gupta S/o Amrit Pal (Partner), M/S Gupta Sons, House No. 391 Green City Phase

2,Bathinda, Punjab 151001. 4. Mr. Pawan Kumar S/o Kastur Chand (Partner & Mortgagor), M/S Gupta Sons, C/O K C Sons, #4298, Singh Sabha Gurudwara Gali, Kikkar Bazaar Bathinda Punjab. 151001. 5 Mr. Surinder Gupta S/o Pawan Kumar(Partner), M/S Gupta Sons, H. No. 20463, Street No. 11, Guru Teg Bahadur Nagar, Bibi wala Road Bathinda Punjab 151001. Guarantor: Parshotam Gupta S/o Kastu

Chand, H. No. 2948, Street No. 11, Guru Teg Bahadur Nagar, Bibi Wala Road Bathinda. Punjab 151001. B/O: PARAS RAM NAGAR, EQM of Residential Property 15.07.2021 29.01.2022 Rs. 3,42,336.06 measuring 67.50 Sq. yards i.e 0 (Rupees Three Lakh Forty Two Thousand

Borrower: 1, Mr. Bigha 1.5/17 Biswas share of Three Hundred Thirty Six and Paisa Six Mukesh Kumar S/o Khasra no 4900min (0-6,3/4). Only) as on 08.06.2021 with future interest Ram Bilas Dass, MCB- Khatta No 1969/1/10122/1,total 0 w.e.f. 01.05.2021 costs, charges and other Z-6-11144/001, Street Bigha 6.3/4 Rakba Nahir Paras ram expenses thereon. (Less Recovery affected No. 2, Baba Shri Nagar, (Hari Enclave) jamabandi thereafter, if any)

Chand Nagar, Paras 2012-13 in the name of Sangeeta W/o Mukesh Kumar bearing UID No. MCB-Z-Ram Nagar, Patti 6-11144/001, Street No. 2, Baba Shri Chand Nagar, Paras Ram Nagar Jhutti, Bathinda, 2, Bathinda Bounded by East: 34' 6.1/2" plot of Kamni Devi, West: 34' 11" street Smt. Sangita W/o 20' wide, North: 14' 8.1/2" Street 24' South: 20' 6" plot of Meera Devi Mukesh Kumar, MCB-Z-6-11144/001, Street No. 2, Baba Shri Chand Nagar, Paras Ram Nagar, Patt

Jhutti, Bathinda. Residential House measuring 150 sq. 30.06.2021 29.01.2022 Rs. 18,69,067,96

B/O: ZILA PARISHAD, BATHINDA (102610) Borrower: 1.Sh.

∆ इलाहाद्याद

Panipat, Haryana- 132103

Date: 28.01.2022, Place: Panipat

financialexp.epapr.in

इंडियन बैंक 👫 Indian Bank

yards Khasra No 4281 min(0-4). (Rupees Eighteen Lakh Sixty Nine 4301/17(3-1), 5725/4301/22(1-4). Thousand Sixty Seven & Paisa Ninety Six Jaswinder Singh S/o 5726/4301/27/(1-5), 4301/30(1-12). Only ) as on 30.06.2021 with future interest Gurtej Singh, Resident 4363(20-4), 4364(26-15),4365(13- w.e.f. 01.05.2021 costs, charges and other of Street no. 33, Petian 14), Khewat no 2842 Khatoni no expenses thereon. (Less Recovery affected Wali Gali ,Lal Singh 14101 vai 14105 Jambandi year 2012- thereafter, if any) Basti (Naruana Road) 2013. Total 67 Bigha 19 Biswa share of 3/1914 = 00 Bigha 2,83/638 Biswa, 106\*1/2 so

yards to Khasra No. 4301/34(1-2), 4301/35(2-4), 4356(20-14),4357(3-15), Khewa no 1571 khatauni no 8257, Jamabandi year 2012-13, Kite 4, Total 27 Bigha 15 Biswe share of 3/1914, Bighe

0,555/638 Biswa, 43\*1/2 sq yards street no 33, Paytiya Wali Gali Naruana Road Patti Jhuti, Bathinda. In the name of Jaswinder Singh S/o Gurtej Singh, vide sale deed no 2019-20/20/1/9466 dated 30.01.2020. Bounded by East: 75'Anil Bharti, West: 75' S jaswinder Singh, North: 18' Street 30' wide, South: 18' Gaushalla Area. Place: Bathinda **Authorized Officer** 

Date: 31.01.2022

WHEREAS Mr. Vikram Bajaj, Liquidator for Saber Papers Limited (in Liquidation) has filed I.A. No. 418 of 2021 under Section 66 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and whereas, the Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench issued notice on all concerned parties including you

....(RESPONDENT NO.3)

...(RESPONDENT NO. 4)

..(RESPONDENT NO. 5)

the above- named. That vide order dated 24.11.2021 the Hon'ble NCLT has permitted the undersigned to serve you the Addressee through substituted service. TAKE NOTICE that the above captioned matter will now be listed on 24.02.2022 before the Hon'ble National Company Law Tribunal,

NOTICE BY WAY OF SUBSTITUTED SERVICE UNDER RULE 38.

OF THE NCLT RULES, 2016 READ WITH ORDER V RULE 20 OF

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908.

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,

CHANDIGARH BENCH

STATE BANK OF INDIA VS. SABER PAPERS LIMITED

I.A. NO. 418 OF 2021 IN C.P. NO. 395/CHD/PB/2018

MIG-1276, SECTOR-32, SAMRALA ROAD, LUDHIANA-141114

HOUSE NO. 31, GARDEN ENCLAVE, SOUTH CITY, AYALI KHURD,

HOUSE NO. 31, GARDEN ENCLAVE SOUTH CITY, AYALI KHURD.

EMAAR MGF CONSTRUCTION PVT. LTD. .....(RESPONDENT NO. 7)

306-308, SQUARE ONE, C-2, DISTRICT CENTRE, SAKET, SOUTH

ECE HOUSE, 28 KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI - 110001

LUDHIANA, PUNJAB-141001 Email: dineshsoin@hotmail.com

LUDHIANA, PUNJAB-141001 Email: abhisoin@gmail.com

Chandigarh Bench at 10.30 AM. You may either appear in person or through your Authorised Representative. TAKE NOTICE that in default of your appearance on the aforementioned

day, the Application will be heard and determined in your absence.

Place: New Delhi LIQUIDATOR FOR M/S SABER PAPERS LTD. (in Liquidation)

**FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED** CIN: L15319DL1985PLC021348 Reed, Off.: 104. Mukand House, Commercia Complex, Azadpur, Delhi-110033 Phone: 011-27673522, 011-47039000 Fax No: 011-27676399 email: info@focuslimited.in Website: www.focuslimited.in

NOTICE

lotice be and is hereby given pursuant to egulation 29 read with Regulation 47 of the SEB isting Obligation and Disclosure Requirements egulation, 2015 that the meeting of the Board Directors of Focus Industrial Resources imited will be held on Tuesday, 8" day of February, 2022 at 5:00 P.M. at the registere office of the Company, inter alia, to consider and pprove the Un-audited Financial Results alor vith Limited Review Report for the quarte ended 31" December, 2021 and to consider an other matter with the permission of Chair. This intimation is also available on the website o BSE Limited (www.bseindia.com) where the of the Company viz.(www.focuslimited.in) For Focus Industrial Resources Limited

(Mamta Jindal Managing Director (DIN-00085096) Date: 31.01.2022

Form No INC-26 (incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another n the matter of Sub Section 4 of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of 'Wellisen Nutraceuticals Private Limited' Having its Registered Office at 3rd Floor, 12 Community Center, Saket, New Delhi-110017 ......Applicant Company/Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application before the Regional Director, Northern Region Bench, New Delhi (Central Government) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed

at the Extra ordinary general meeting held on 20th

December, 2021 for amending clause II of the

Memorandum of Association to shift its registered

office from 'National Capital Territory of Delhi' to 'State of Maharashtra (within the Jurisdiction Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may either on MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or deliver or cause to be delivered or send by egistered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within

Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the objections to the applicant company at its registered office at the address 3rd Floor, 12 Community Center, Saket, New

For Wellisen Nutraceuticals Private Limited Vinita Guliani Date: 29.01.2022

Director DIN: 00127791 R/o: G-2, Near IGNOU, Saket South Delhi, Delhi-110017

On Behalf of the Board

INDIAN BANK, BRANCH OFFICE,

## **E-AUCTION SALE NOTICE**

HAIBOWAL LUDHIANA Phone No.: 0161-2311800, 7347035103

NOTICE OF INTENDED SALE

E Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of security interest (Enforcement) Rules 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and Guarantor)s) that the below described immovable property mortgaged / Charged to the secured creditor the constructive possession of which has been taken by authorized officer of Indian Bank, will be sold on "As is where is" "as is what is basis" & "whatever there is" on 23.02.2022 for recovery due to the Indian Bank, secured creditor from following borrower. At the reserve price and EMD amount given in respective column hereunder

Name of the Branch/ Borrower/ Guarantor/Mortgagor  Mortgaged Assets/ Type of Possession		Amount Secured Debt Reserve Pric		Prior Encumbrance		
	All that part and parcel of land measuring 125.46 sq yards comprised in Plot no 6, khasra no 22/16/2, 17/2, 17/4, 18/1/2, 23/2/1, 24/1, 24/5, 25/1as per jamabandi for the year 2011-12 situated at Maharaja Aggarsain Enclave,	20 12 2021 plue interest		NII		
No.1, Near Ganesh Mandir, Village Khanpur, Headbast No. 256, Tehsil and District Ludhiana as per sale deed Wasika no 4979 dated Civil City, Chander Nagar, 20.10.2014. Boundaries: East: Road 35'0", West: Road 11'0", North: Road 45'0", South: Plot No. 07'-45'-2".						

Type of possession :- Physical. Ludhiana (Punjab) Last date & time for submission of bid through e-auction mode: 22.02.2022 up to 5:00 PM

Date, Time & Place of sale:-23.02.2022, 11:00 AM to 3:00 PM through e auction \*\*Bidders are advised to visit the website (http://www.mstcecommerce.com.com) of our e-auction service provider M/s IBPAI for auction bid form and detailed terms and conditions which are annexed to the bid form. The helpline No. to get

assistance during the entire process is 01812275812. Date: 31.01.2022

ALLAHABAD

Place: Haibowal Authorized Officer, Indian Bank

INDIAN OVERSEAS BANK

**BINJHOL BRANCH** VPO-Binjhol, Panipat, Haryana-132103

**Authorized Officer** 

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [(Rule 8(1)]

The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrowers / mortgagors / guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/ mortgager/ guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said

Rules on this 28th day of January of the year 2022. The borrowers /mortgager/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be Subject to the charge of Indian Overseas Bank for amount mentioned below with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid

date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand notice Note:. The dues payable as on the date of taking possession mention below + Interest payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of

The borrower/ mortgager/guarantor attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the

Name of Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice
W/o Ashok Kumar Tayal VPO- Pasina Khurd Road, Vill- Sewah ,Tehsil- Panipat, Dist- Panipat Haryana- 132103 Guarantors: (1) Mr. Ashok Kumar Tayal S/o	Factory Land & Building 3K-12M being 72/148 share of Land measuring 7K-8M comprising Khewat No.1520 Khasra No.126/21/3(1-4) & Khewat No.1757 Khasra No.133/1/1 (6-4) situated at Pasina Khurd Road, Village-Sewah, Tehsil & District: Panipat-132103, Haryana. Measuring- 2169 Sq. yd. (as per Deed), The Property is in the name of Mrs. Sunita W/o Mr. Ashok Kumar Tayal Boundaries: North: M/s Banke Behari, East: Agri Land of Sumer Chand, South: Agri Land of Ved Parkash, West: Road	as on 29.04.2021 with further interest at contractual rates and rests, charges	29.04.2021
W/o Ashok Kumar Tayal VPO- Pasina Khurd	Factory Land & Building 3K-12M being 72/148 share of Land measuring 7K-8M comprising Khewat No.1520 Khasra No.126/21/3(1-4) & Khewat No.1757 Khasra No.133/1/1 (6-4) situated at Pasina Khurd Road, Village-Sewah, Tehsil & District: Panipat-132103, Haryana. Measuring- 2169 Sq. yd. (as per Deed), The Property is in	as on 29.04.2021 with further interest	29.04.2021

Guarantors: (1) Mr. Ashok Kumar Tayal S/o the name of Mrs. Sunita W/o Mr. Ashok Kumar Tayal Boundaries: North: M/s Banke and rests, charges

Shyam Lal Tayal H No 832, Sector-12, Behari, East; Agri Land of Sumer Chand, South; Agri Land of Ved Parkash, West; Road

**FINANCIAL EXPRESS** 

MANOJ KACKER

ABHISHEK SOIN

DELHI, NEW DELHI - 110017

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

CIN No. L40101HP1988GOI008409

without prior written consent of the secured creditor. Dated 29.01.2022, Place: Delhi & Delhi NCR Authorized Officer, Axis Bank Ltd

### RAMPUR HYDRO POWER STATION

PRESS NOTICE, E- Tender No. PCD-O&M-RHPS-550

Online bids (e-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are invited on behalf of SJVN Ltd. for "C/o Gent's toilet. P/LC. C. Painting of Boundary wall and other Misc. work in premises of O&M Store at Averi Rampur HPS Bayal (PCD-O&M-RHPS-550)". For details, please visit websites www.sjvn.nic.in, https://sjvn.abcprocure.com and www.eprocure.gov.in. Last date and time for bid submission is 21.02.2022 (13:00 hrs.). Amendment(s), if any, shall be issued on above websites only.

Additional General Manager

P & C Department, Rampur HPS, SJVN Ltd Bayal, District Kullu (HP) -172023.

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli

Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123 Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005 Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001 Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780 Email: pacificinvestor@rediffmail.com; Website: www.pacificindustriesltd.com CIN: L14101KA1989PLC062041

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation47 ofSEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday,09 February 2022at the Corporate Office of the company situated at Village Bedla, Udaipur - 313001 to consider and approve the Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results of the Company for the quarterended on December 31st, 2021. This information is also available on the website of the company at www.pacificindustriesltd.com and on the website of BSE ltd at www.bseindia.com. By order of the Board

For Pacific Industries Limited Date : 31.01.2022 (Sachin Shah) Place: Udaipur Company Secretary

FORM No. 5

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL** 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION O.A. No. 1513/2019 (Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with rules 12 and 13 of

the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993) O.A. No. 1513/2019 ...APPLICANT UNION BANK OF INDIA (e-CORPORATION BANK)..

VERSUS DEFENDANT MOHD, AMIR USMANI

1. MOHD, AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector- 13 Vasundhara, Ghaziabad- 201005 SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485.

Second Floor, Sector- 13 Vasundhara, Ghaziabad-201005 3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the

Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi- 110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and

decided in your absence.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

**B J DUPLEX BOARDS LIMITED** CIN: L21090DL1995PLC066281 Regd. Office: H. NO. 83, T/F CHAWRI BAZAR, DELHI-110006 Tel.: (91)-11-41410139

Email Id: sbj@anandpulp.com; Website: https://www.bjduplexboard.com Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter & Nine Months Ended 31" December, 2021 (In lakhs) Quarter ended Nine Months Ended

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 (Unaudited) Unaudited) (Unaudited) Jnaudited Total Income from Operations 0.00 0.00 0.00 0.05 Net Profit / (Loss) for the period (0.14)(1.44)(0.55)(2.87)(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before (1.44)(2.87)(0.14)(0.55)tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (0.14)(1.44)(0.55)(2.87)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the 0.00 0.00 0.00 0.00 period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 37.66 37.66 37.66 Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each) Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued (0.027)(0.01)(0.056)

The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the third guarter and nine months ended 31" December, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 31" December, 2021is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.bjduplexboard.com).

by the Board of Directors in its meeting held on 31" January, 2022. For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

The above un-audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved

Satya Bhushan Jain

Whole Time Director Date : 31" January, 2022

NAME OF THE BORROWER /

Retail Assets Centre, Noida: AXIS BANK LTD. 23, K.G. MARG AXIS BANK HIMALAYA HOUSE, C.P. DELHI, Office - Axis Bank Ltd., Axis

House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301 Corporate Office: Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025 Registered Office. Trishul, 3rd floor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad

## DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/mortgagors mentioned hereunder had availe the financial assistance from Axis Bank Ltd. We state that despite having availed the financia assistance, the borrowers/guarantors/mortgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India, consequent to the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rul 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers /guarantors /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices. The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

ADDRESS/ CO-BORROWER AND GUARANTOR NAME	ADDRESS OF SECURED	DATE OF DEMAND NOTICE	
Service Control of Con	ASSETS	OUTSTANDING AMT (Rs. AS ON DATE OF NOTICE	
		LOAN AMOUNT (Rs.)	
1- Mrs. Angoori Devi W/o Mr. Raghuvir Singh		09-NOV-2021	
Yadav R/o-X- Block, Braham Puri X - 5/7 Gali		29-Jan-2022	
No. 8, Garhi Mendu North East Delhi-110053. 2- Mr. Narender Kumar Yadav S/O Mr. Raghuvir Singh Yadav, Mrs. Angoori Devi W/O Mr. Raghuvir Singh Yadav, & Mrs. Surasti Yadav All Are Resident Of R / O - D -19, Swarm Nagari Greater Noida, Tehsil & Dist Gautambudh Nagar, 203207, U.P. 3-Mrs. Angoori Devi W/O Mr. Raghuvir Singh Yadav M/S Hans Industries N- 15 Industrial Area Sikandrabad, Bulandshahar Uttar Pradesh-203205. 4- Mr. Narender Kumar Yadav S/o Mr. Raghuvir Singh Yadav M / S Narender Kumar Yadav Propreitor N-15 Industrial Area Sikandrabad, Bulandshahar Uttar Pradesh-203205	Swaran Nagri, D is t r i c t Gautambudh Nagar, U.P. Area 200 Sq. Mtrs. Bounded As Under: North- East Plot No. 18. South-West: Plot No. 20. North: As per the Lease	Five Only) Rs. 8,87,811/-	

PROPERTY

mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and the applicable rules thereunder. Kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 1. of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues togethe with all costs, charges and expenses incurred by the Bank only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Bank is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s) Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by

way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice,

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED Regd. off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019

Report of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2021.

Ph: 0120-4712800, website: www.trinitygroup.ind.in ; e-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in CIN No. L93000DL1988PLC031953 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, the 10" Day of February, 2022 at Noida, Uttar Pradesh, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) along with the Limited Review

he information contained in this notice will also available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and also, on Stock Exchange website www.bseindia.com. For Trinity League India Limited

Pivush K. Srivastava

Place: Noida (Company Secretary & Compliance officer) Date: 31.01.2022

> FORM No. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007

O.A. No. 941/2020 (Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with rules 12 and 13 of

the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993) O.A. No. 941/2020

UNION BANK OF INDIA (e-CORPORATION BANK).. ..APPLICANT **VERSUS** ARUP JYOTI SARMAH & ANOTHER DEFENDANT

 ARUP JYOTI SARMAH S/o Shri Bhairab Sarmah R/o G-1464 Gaur Grrandeur, Sector-119, Noida- 201310 (Uttar Pradesh)

2. SMT. CHAYANIKA DEVI W/o Shri Arup Jyoti Sarmah R/o G-1464 Gaur Grrandeur, Sector-119, Noida- 201310 (Uttar Pradesh)

3. M/S UNNATI FORTUE HOLDINGS LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at Unnati Fortue House, B-117, Sector-67, Noida- 201301 (Uttar Pradesh)

n the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 14.03.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. REGISTRAR

PMC FINCORP LIMITED

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

CIN: L27109UP1985PLC006998

Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh, 244901 Corporate Office: 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Email:pritimercantile@gmail.com; Website: www.pmcfincorp.com; Tel: 011 - 42436846 NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of

Company will be held on Thursday, February 24, 2022 at 11:00 AM through Video Conferencing

("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the Special Businesses, as set out in the Notice of the said meeting. The detailed procedure for joining the EGM through VC/OAVM is provided in the Notice of EGM. Notice of EGM: The Notice has been sent in electronic mode to Members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). The Notice of the EGM is also available on the Company's website: www.pmcfincorp.com, Members, who have not received the Notice, may refer to or download the same from the website of the Company or may

request for a soft copy of the same by writing to the undersigned at the Corporate Office of

the Company situated at 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 or by e-mail at

pritimercantile@gmail.com. Voting: Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations 2015, as amended, read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has availed the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to facilitate the Members to exercise their right to vote by remote e-voting and e-voting at EGM. The detailed process of remote e-voting and e-voting at EGM is available in the notice of the neeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Thursday, February 17, 2022 being the cut-off date may cast their vote electronically by remote evoting. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during

The remote e-voting period commences on Monday, February 21, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, February 23, 2022 at 5:00 P.M. (IST). The results of voting would be declared within the stipulated time as mentioned under the relevant laws and will also be posted on the We hereby state that:

) remote e-voting shall not be allowed beyond Wednesday, February 23, 2022 at 5:00 P.M. (IST) ) the facility for e-voting by the members, who have not voted through remote e-voting, shall be

 a member may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again at the EGM through e-voting during the EGM. a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Thursday, February 17, 2022 (end of day) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the EGM and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up

share capital of the Company as on the cut-off. Further, we request to the members whose email id not registered with RTA/ company or

epository may get user details in following manner: -Please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the Shareholder holding in physical mode share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Indus Portfolio Private Limited (RTA) at rs.kushwaha@indusinvest.com. Please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit Shareholder holding beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Accounin demat mode statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR

(self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Indus Portfolio Private Limited (RTA) at rs.kushwaha@indusinvest.com Contact Details: In case of any guery/concern/grievance, Members may send a request priti.g@indusinvest.com/ shanker.k@indusinvest.com or may write to the Company at pritimercantile@gmail.com.

By Order of the Board of Directors For PMC Fincorp Limited

Chetna Sajwan

Company Secretary

Place: New Delhi Date: January 31, 2022

## **JAY USHIN LIMITED**

CIN: L52110DL1986PLC025118

Registered Office: GI-48, G.T. Karnal Road, Delhi- 110033 Website: www.jpmgroup.co.in | Email id: julinvestors@jushinindia.com Phone No: 91(124)-4623400

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Dividend declared for the financial year 2013-14, which remained unclaimed for a period of seven years and credited to the IEPF. The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices dated August 3, 2021 has been sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website: https://www.jpmgroup.co.in

In this connection, please note the following:

a) Incase you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled. b) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will

be debited for the shares liable for transfer to the IEPF. In the event valid claim is not received within 15 days from the date of publishing this notice, the Company will proceed to transfer the liable dividend and Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company. For any queries on the above matter, shareholders are requested to

contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. RCMC Share Registry Private Limited Unit: Jay Ushin Limited, B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Tel: 011-26387320, 21 Fax: 011-26387322 email ID: investor.services@rcmcdelhi.com or you may send the same to Company's address: GP 14 HSIIDC, Industrial Estate, Sector -18, Gurugram 122001, Haryana. Email ID: julinvestors@jushinindia.com

For Jay Ushin Limited Jyoti Kataria

Nodal Officer and Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram, India

Date: 31.01.2022

New Delhi

NPA DATE

## OSBI

स्टॅटेजी एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग, कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई - 400021

शुद्धिपत्र

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 'संचालन सहायता अनुषंगी के गठन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति' के हेत् कृपया आरएफपी क्र. SBI/S & DB/2021-22/OSS/001 दिनांकित 05.01.2022 को देखें. शुद्धि-पत्र दिनांकित 31.01.2022 को बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर देखा जा सकता है.

स्थान: मुंबई तिथि: 01.02.2022

होने की तिथि

नम्बर तथा पंजीकरण संख्या

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

समापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन

महाप्रबंधक (ओएसडी) स्टॅटेजी एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग

बी-138. विनोबा भावे नगर. आम्रपाली मार्ग. वैशाली.

प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा [ भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

दानगाह । जुझाला। जुलल इजा। नयास्य । इडिया प्राइटर । लामटङ क स्टक्शास्का क स्थानार्थ वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक आरओसी-दिल्ली निगमित/पंजीकृत है का U45208HR2006PTC044649 सीमित दायित्व पहचान संख्या 5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा फ्लैट नं. 003, ऊपरी भृतल, पर्वेश रेजीडेन्सी, राजेन्द्रा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता पार्क, गुड़गाँव, एचआर 122002 आईएन

जयपुर, 302021 Vikram: nimbli@gmail.com मोबाईलः 8696934073 पंजी. सं. | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI/N/00203/2018-

19/12361

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है दोनगाह जिओलॉजिकल इंजीनियरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 31.01.2022 को स्वैच्छिक परिसमापन शरू किया है। एतदुद्वारा दोनगाह जिओलॉजिकल इंजीनियरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता

है कि आइटम नं. ७ में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 02.03.2022 को या उससे पूर्व अपने दावे का फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी

क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः विक्रम सिंह राठौर

तिथि एवं स्थानः जयपुर, 1 फरवरी, 2022

## **CAREER POINT EDUTECH LIMITED**

Pursuant to Section 230 and Rule 16 of the Companies

(Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 Company Scheme Application No. C.A.[CAA] No. 03/230-232/JPR/2021 Career Point Edutech Limited .... Applicant Company / Applicant Resulting Company

#### ADVERTISEMENT OF NOTICE OF HEARING

Notice is hereby given that by an Order dated December 23,2021 the Jaipur Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") has fixed the next date of hearing on Friday, 11th February 2022 for the consideration of the approval of the proposed Scheme of Arrangement between Plancess Edusolutions Private Limited ("Demerged Company") and Career Point Edutech Limited ("Resulting Company") and their respective Shareholders ("Scheme of Arrangement"/ "Scheme").

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that a hearing will be held on Friday, 11th February 2022 at National Company Law Tribunal, Jaipur Bench from 10:30 a.m. onwards or any other time when Hon'ble Tribunal presides. Any person desirous of supporting or opposing the said scheme should sent to the registered office of the Applicant company or at the office of its advocates, the notice of his/her intention signed by him or his advocate with his/her name and address, so as to reach the applicant/advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he/she seeks to oppose the scheme, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished

The Copies of the Second Motion Petition, the Scheme and of the Explanatory Statement under section 230 and 232 can be obtained from the registered office of the Applicant Company mentioned above and at the office of its advocates, Bathiya Legal at 1003, 10th Floor, Ansal Towers 38,

Career Point Edutech Limited

Pramod Maheshwari Date: January 31, 2022 Director

### पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 232बी, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011-33550700, फैक्स : 011-26321894 वेबसाइट :www.polymedicure.com, ई-मेल :investorcare@polymedicure.com

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित

एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर रु. लाख में) स्टैण्डएलोन समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही | समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही । समाप्त तिमाही । समाप्त तिमाही । 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) 20,855.39 1 प्रचालनों से सकल आय 66,464.43 19,881.39 23,741.07 69,525.24 2 अवधि हेतु कुल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित 4,553.42 14,369.41 4,433.03 4,583.93 14,645.34 4,601.95 तथा/अथवा असाधारण मदों से पुर्व) 3 कर पूर्व अवधि हेतु कुल लाभ/(हानि) (अपवादित 4,583.93 4,553.42 14,369.41 4,433.03 14,645.34 4,601.95 तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 3,351.52 4 कर पश्चात अवधि हेतु कुल लाभ/(हानि) 3,530.80 3,420.62 10,758.04 3,451.13 11,033.97 (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [ अवधि हेतु 3,406.35 10,755.32 3,340.92 3,436.86 11,031.25 3,520.20 |लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक |आय (कर पश्चात) सहित] 6 इक्विटी प्रदत्त शेयर पूँजी 4,795.02 4,795.02 4,412.35 4,795.02 4,795.02 4,412.35 7 आय प्रति शेयर (रु. 5 प्रत्येक का अंकित मुल्य (तिमाही वार्षिकीकृत नहीं) बेसिक (रु.) 4.00 3.57 11.22 3.80 3.60 11.51 3.57 3.79 3.60 11.50 डाइल्युटेड (रु.) 11.21 3.99

नोट :

- 1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन तथा समेकित परिणाम लेखापरीक्षा सिमति द्वारा समीक्षित तथा संस्तुत किये गये और 31 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी सम्बद्ध बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये तथा साथ ही कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गयी।
- 2. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

हिमांशू बैद

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 31 जनवरी, 2022

प्रबन्ध निदेशक



# भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

"शिपिंग हाउस" 245, मादम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

• Website: www.shipindia.com • Twitter: @shippingcorp

CIN-No.: L63030MH1950GOI008033

### 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों की अवधि के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का विवरणपत्र

	(रकम ₹ लाख र							
T		स्टैंडअलोन			समेकित			
क्र. सं.	विशिष्टियां	31.12.2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 को समाप्त नौ महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 को समाप्त नौ महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	
1	परिचालनों से कुल आय	143,823	368,737	84,123	143,823	368,738	84,123	
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	31,463	69,718	10,740	33,586	74,615	13,567	
3	अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	31,463	69,718	10,740	33,586	74,615	13,567	
4	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	29,031	66,408	10,330	31,154	71,305	13,157	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर पश्चात्) लाभ/ (हानि) तथा (कर पश्चात्) अन्य व्यापक आय सहित]	29,224	67,821	10,773	32,043	74,577	12,409	
6	इक्विटी शेयर पूँजी	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	
7	प्रारक्षण (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षण छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	-	_	-	-	-	
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक रु.10 के) (जारी रखे गए तथा बंद किए गए परिचालनों के लिए) (रूपए में)							

डायल्युटेड : 6.23 14.26 2.22 6.69 15.31 2.82 ऊपर वर्णित पाठ, सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए तिमाही/नौ महीनों के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही / नौ महीनों की समाप्ति के बाद के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटो पर (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट www.shipindia.com पर उपलब्ध है।

14.26

31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही अवधि के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानकों (Ind-AS) का अनुपालन करते हैं।

उक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा 31 जनवरी, 2022 को आयोजित संबंधित बैठकों में ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया। कते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड श्रीमती एच के जोशी

6.23

DIN-07085755 

2.22

6.69

15.31

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (वित्त) अतिरिक्त कार्यभार

2.82

| दिनांक : 28.01.2022, स्थानः पानीपत

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए

CIN: U80302RJ2006PLC023306 Registered Office: B-28, 10-B Scheme, Gopalpura Byepass, Jaipur 302018 (Raj.)

along with such notice.

Nehru Place, Delhi-110019 after payment of prescribed fees for the same.

Sd/-

Place: Jaipur (Raiasthan) DIN: 00185711 टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-23, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, जीके ।।, नई दिल्ली-110019 दूरभाषः 0120-4712800, वेबसाइटः www.trinitygroup.ind.in; ई—मेलः trinityleague@trinitygroup.ind.in सीआईएनः L93000DL1988PLC031953

तदद्वारा सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम २९ एवं ४७ के अनसार सिंव किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल की एक बैठक का आयोजन गुरुवार 10 फरवरी 2022 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया जाना अनुसुचित है, जिसमें यानी कि बैठक में अन्य बातों के साथ-राध 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं न महीनों के लिए कंपनी के सीमित समीक्षा प्रतिवेदन के साथ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल तथा समेकित) पर विचार

किया जाएगा तथा उनका अनुमोदन किया जाएगा। इस सचना में समाविष्ट जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

PEE CEE COSMA SOPE LIMITED

पीयूष के. श्रीवास्तव (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

# PEE CEE COSMA SOPE LTD.

CIN: L24241UP1986PLC008344 Regd Office: Hall No. H1 - H2, First Floor, Padam Plaza, Plot No. 5, Sector-16B Awas Vikas Sikandra Yojna Agra, Tel.No. 0562-2527332, Fax.No. 0562-2527329 e-mail: pccosmalisting@doctorsoap.com

#### PUBLIC NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 11th February, 2022 inter alia to approve and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December. 2021. Trading Window for dealing in securities of the Company is under closure from 3rd January, 2022 and will remain closed till the end of 48 hours after the results are made public on 11th February, 2022. The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and company's website www.doctorsoap.com. For & on behalf of the Board

Place: Agra

दिनांकः 31.01.2022

ANKUR JAIN (Managing Director) DIN:00172356 Date : 31.01.2022

#### ईस्टर्न जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L01131WB1952PLC020342:

पंजीकृत कार्यालयः 90/31, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता- 700038 दुरभाष: 033 2398 3475/3289;

ईमेलः ashishagarwal@rawjute.in; वेबसाइटः www.rawjute.in/egi.html

ईस्टर्न जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं. से अपने इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके परिणाम 09.04.2021 को घोषित किए गए थे। प्रमोटर एक्वायरर ने सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को ऑफर लेटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से 266.48 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के ऑफर प्राइस पर डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के लिए लिखा है, जिससे उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलता है। इस प्रकार, कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर, यानी अंततम 03.03.2022 तक कंपनी/अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड ("कंपनी के "रजिस्ट्रार") के साथ अपना पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी अपडेट करें। उन्हें डीलिस्टिंग ऑफर में सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रभावी भागीदारी के लिए कदम उठाने में सुविधा प्रदान करना।

हम सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यान में यह भी लाना चाहेंगे कि भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड अपने परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 से स्पष्ट किया है कि भौतिक रूप प इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को भी अब डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की अनुमित है। अन्यथा, भौतिक रूप में अपने शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक उन्हें तब तक स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज नहीं कर लेते।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तत करने के मानदंड के लिए कपया सेबी परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को देखें। शेयरधारक अपने प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं:

इस्टर जनस्य इंडस्ट्राज स्थानटड	जलायम जसाइनमद्स लामटड			
आशीष कुमार अग्रवाल	विजय अग्रवाल			
(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)	(क्षेत्रीय प्रबंधक)			
फोन नंबरः 8697066027	फोन नंबरः 7980955803			
ईमेल आईडीः ashishagarwal@rawjute.in	ईमेल आईडीः vijaya@alankit.com			
	कृते ईस्टर्न जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड			
	हस्ता/-			
	आशीष कुमार अग्रवाल			
थानः कोलकाता कंपनी र				

तिथि: 31.01.2022 रिटेल एसेट्स सेन्टर, नोएडा: एक्सिस बैंक लिए, 23, के.जी.मार्ग, AXIS BANK हिमालय हाउस, सी.पी. दिल्ली, कार्यालयः एक्सिस बैक लि., एक्सिस

हाउस, टाक्र टी-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्स्प्रैसवे, जयपी ग्रीन्स,विज्ञटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, कार्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक-बी, बाम्बे डाइंग मिक्स

कम्पाडण्ड, पाण्डुरंग वृधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025, पंजीकृत कार्यालय: 'त्रिशृल', उरा तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006

मांग सूचना जैसा कि एक्सिस बैंक लि. से यहाँ नीचे वर्णित ऋगधारकों/सह-ऋणधारकों/गांरटरों/बार्टगैजरों ने वितीय सहायता प्राप्त

की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त किये होने के बावजद ऋणधारकों/गांस्टरों/मार्टगैजरों ने नियत तिथि के अनुसार ब्याज तथा मूल राशि के भुगतान में विभिन्न डिफॉल्ट्स की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे वर्णित संबंधित तिथि को खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदुपरांत एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋषधारकों/गांरटरों/माटंगैजरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान की तिथि तक अनुषंगिक खर्चे, लागत, चाजेंज आदि के साथ सुचना में वर्णित राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के रुवाज के साथ सुचना में वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। उनके ऑतम ज्ञात पते पर जारी की गई सूचना उन्हें प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई और इसीलिये सार्वजनिक सूचना के द्वारा इस विषय में उन्हें सूचना दी जा रही है ।

ऋणधारक का नाम/सह-ऋणधारक एवं	प्रतिभृति परिसम्पत्ति	एनपीए तिथि
गारेटर का पता तथा नाम	का पता	मांग सूचना तिथि
	] [	सूचना की तिथि को बकाया राशि
		ऋण संशि (रु.)
<ol> <li>श्रीमती अंगृरी देवी, पत्नी श्री रघुवीर सिंह यादव</li> </ol>	आवासीय प्लॉट नं.	9 नव. 2021
निवासी: एम्स-स्लॉक, ग्रह्मपुरी, एम्स-5/7		29 जन. 2022
गली नं. 8, गड़ी, मेण्डु, उत्तर-पूर्व दिल्ली-110053 2. श्री नरेन्द्रर कुमार यादव, पुत्र श्री रघुवीर सिंह यादव, श्रीमती अंगूरी देवी, पत्नी श्री रघुवीर सिंह यादव एवं श्रीमती सुरहित यादव, सभी निवासी: डी-19, स्वर्ण नगरी,	नगरी, जिला गौतम चुध नगर, उ.प., एरिया 200 वर्ग मी.	रु. 8,54,705/- (रु. आट लाख चौवन हजार सात सी पाँच मात्र)
ग्रेटर नोएडा, तहसील एवं जिला गीतम बुध नगर 203207, उ.प्र. 3. श्रीमती अंगूरी देवी, पत्नी श्री रघुवीर सिंह बादव, मैं. हंस इंडस्ट्रीज, एन-15, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205, 4. श्री नरेन्द्र कुमार बादव पुत्र श्री रघुवीर सिंह बादव, मैं. नरेन्द्र कुमार बादव, प्रॉप्ताइटर एन-15, इंडस्ट्रियल एरिया सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश 203205	चीह्दी: उत्तर-पूर्वः प्लॉट नं, 18, दक्षिण- पश्चिमः प्लॉट नं, 20, उत्तरः लीज प्लान के	ਓ. 8,87,811/-

उक्त परिस्थितियों में उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को एतद्हारा निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा लागू होने वाले चार्जेज के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भगतान करें अन्यथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत लागु होने वाले नियमों के अंतर्गत ऋणधारकों तथा मार्टरीजरों की प्रतिभृति परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेने सहित प्रतिभृति परिसम्पत्तियों के विरुद्ध सचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कारवाई की जायेगी। आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसमें आप जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि के द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभृति परिसम्पत्तियों की विक्री के लिये सुचना के प्रकाशन को तिथि तक बैंक हारा वहन को गई सभी लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भूगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि यदि बैंक द्वारा चहन की गई लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि की भुगतान जनता से कोटेशन/निवदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री सुचना के प्रकाशन से पूर्व नहीं की जाता है तो आप प्रतिभृत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिये

कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिभृति क्रेडीटर की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना कोई भी ऋणधारक इस सचना में वर्णित प्रतिभति परिसम्पतियों का बिक्री.

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि. तिथि: 29.01.2022, स्थान: दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर

कब्जा सूचना

**जैसा कि**, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन [ अधिनियम (2002 के 54) के अंतर्गत **सिटी बैंक एन.ए.**, पंजीकृत कार्यालयः 5वां तल,

डीएलएफ स्क्वॉयर, एम-ब्लॉक, जकरंडा मार्ग, डीएल सिटी, फेज-2, गुरुग्राम-122002 के प्राधिकर अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धार 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 26.11.201 तथा सुचना 09.01.2020 जारी कर धीरज यादव, सुश्री रेण यादव, श्री ओम प्रकाश (यहां के बाव 'ऋणधारकों'' वर्णित) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 10,73,145/-(रुपये दस लाख तिहत्तर हजार एक सौ पैंतालिस मात्र) वापस लौटाने क

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता कं सुचित किया जाता है कि आज, 27 जनवरी, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु**. 10,73,145/-( **रुपरे दस लाख तिहत्तर हजार एक सौ पैंतालिस मात्र**) तथा उस पर ब्याज के लिये सिटी बैंक एन.ए. वे

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ ग अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण:** अपार्टमेन्ट नं. एससीबी 152. द स्काई कोट, डीएलएफ गार्डन सिटी सेक्टर 86, गृडगाँव-122002 का सभी प्लॉट।

तिथि: 27.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गुडगाँव सिटी बैंक एन.ए

#### बी.पी. कैपिटल लिमिटेड CIN:L74899HR1994PLC072042

पंजी. कार्या: प्लॉट नं. 138. आरओजेड–का–मीओ औद्योगिक क्षेत्र, सोहना, (जिला मेवात), हरियाणा–122103 फोनः 0124–2362471, वेबसाइट: www.bpcapital.in, ईमेलः bpcapitallimited@gmail.com 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

-1-15/7				(0. 61
क्र. सं.	विवरण	31.12.2021 को समाप्त तिमाही हेतु (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 को समाप्त नौ माह हेतु (अलेखापरीक्षित)	31.12.2 को सम् तिमाही (अलेखापर्र
-1.	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	0.00	0.00	0.00
2.	अवधि हेत् निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक	(5.95)	(15.32)	(3.78
	एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)			
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक	(5.95)	(15.32)	(3.78
	एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	` ′	` ′	(5.1.
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक	(5.95)	(15.32)	(3.78
	तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	( , , ,	(/	(5.71
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात्) हेतु	(5.95)	(15.32)	(3.78
	लाभ / (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)		(10.02)	(3.76
6.	समता अंश पूंजी	301.18	301.18	301.
7.	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
':	के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार	0.00	0.00	0.00
8.	आय प्रति अंश (रु. 10/ – प्रत्येक का) (संचालित और बंद			
0.				
	प्रचालन हेतु)—		, ,	,
	मूलः	(0.20)	(0.51)	(0.13
	तनुकृतः	(0.20)	(0.51)	(0.13
उप	रोक्त जो है वह सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं)	विनियमावली 20	15 के विनियम	33 के अं

स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज त्रैमासिक एवं नौ माहों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एव सारांश है। उपर्युक्त त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप जो हैं वह बीएसई की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.bpcapital.in पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त परिणामों को कंपनी (आईएनडीएएस) नियमावली 2015 के अनुसार तैयार किया जाता है।

बी.पी. कैपिटल लिमिटे के निदेशक मण्डल के लिए एवं उसकी ओर सुजय नारायण इ प्रबंध निदेशव

डीआईएन: 0289854

जय उशिन लिमिटेड

सीआईएन : L52110DL1986PLC025118 पंजीकृत कार्यालय : जीआई-48, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110033 वेबसाइट : www.jpmgroup.co.in | ई-मेल : julinvestors@jushinindia.com

सूचना

दुरभाष : 91( 124 )- 4623400

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कम्पनी के इक्विटी शेयरों के अन्तरण हेत्

एतदद्वारा शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि यथासंशोधित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 (''नियमावली'') के अनुसार सात वर्षों की अवधि के घोषित और आईईपीएफ में जमा किये गये लाभांश। संगत शेयर जो लगातार सात वर्षो तक अदावाकृत रहे उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्तरित कर

नियमों के अनुपालन में, 3 अगस्त, 2021 दिनांकित व्यक्तिगत नोटिस उन सभी संबंधित शेयरधारकों को भेजे गए हैं जिनके शेयर उपरोक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसे शेयरधारकों का पूर विवरण कंपनी की वेबसाइटः https://www.jpmgroup.co.in पर उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में, कुपया ध्यान दें :

स्थानः हरियाणा

सदस्यता सं. ए६०६९७

दिनांकः 31.01.2022

- i. भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए: डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाएंगे। आपके नाम से पंजीकृत और आपके पास धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा।
- ii. इलेक्ट्रॉनिक मोड में धारित शेयरों के लिए: आईईपीएफ में हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी शेयरों के लिए आपका डीमैट खाता डेबिट कर दिया जाएगा। इस नोटिस को प्रकाशित करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वैध दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कंपनी बिना किसी अन्य नोटिस के आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में उत्तरदायी लाभांश और इक्विटी शेयरों को अन्तरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ायेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार दाव न की गई लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयरों और लाभांश का दाव निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5 में ऑनलाइन आवेदन करके और फॉर्म आईईपीएफ -5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों की भौतिक प्रति कम्पनी के

नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं। उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड यूनिटः जय उशिन लिमिटेड, बी-25/1, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-II, नई दिल्ली- 110020, दूरभाषः 011-26387320, 21 011-26387322 investor.services@rcmcdelhi.com से सम्पर्क करें या आप इसे कंपनी के पतेः जीपी 14 एचएसआईआईडीसी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर -18, गुरुग्राम 122001, हरियाणा, ईमेल आईडीः julinvestors@jushinindia.com पर भेज सकते हैं

कृते जय उशिन लिमिटेड नोडल अधिकारी और कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक

बिंझोल शाखा वीपीओ—बिंझोल, पानीपत, हरियाणा—132103

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसम उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों को सचना में वर्णित राशि का वसली की तिथि तक संविदात्मक दरों पर भावी ब्याज तथा शेषों, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

दिनांक: 31.01.2022

उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों व प्रयोगान्तर्गत, 28 जनवरी 2022 को, कब्जा ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं / बंधककर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह निम्न वर्णित राशि और, मांग सूचना में वर्णित उपर्युक्त तिथि से लेकर के भुगतान की तिथि तक, उस पर अनुबंधितानुसार संविदात्मक दरों पर ब्याज तथा शेषों, मांग सूचना निर्गमन के उपरांत किए गए प्रतिभुगतान, यदि कोई होता है, को घटाकर किए जानेवाले भुगतान हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभाराधीन होगा। टिप्पणी:- निम्न वर्णित कब्जा लिए जाने की तिथि के अनुसार भूगतानयोग्य देयराशियां. भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं शेषों, प्रभारों इत्यादि के साथ

भगतानयोग्य ब्याज। उँधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उनके लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की

उधारकर्ता / गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि
पत्नी अशोक कुमार तयाल वीपीओ—पसीना खुर्द रोड, ग्राम—सेवाह, तहसील—पानीपत, जनपद—पानीपत, हरियाणा—132103 गारंटरगणः (1) श्री अशोक कुमार तयाल पुत्र श्याम	कारखाना भूमि एवं भवन 3के—12एम जो 72/148 अंश है उस भूमि का जिसका मापन 7के—8एम है, जो खेवट सं. 1520, खसरा सं. 126/21/3(1—4) एवं खेवट सं. 1757 खसरा सं. 133/1/1 (6—4) से समाविष्ट है, जो पसीना खुर्द रोड, ग्राम—सेवाह, तहसील एवं जनपद—पानीपत 132103, हरियाणा में स्थित है, जिसका मापन 2169 वर्ग गज (विलेख के अनुसार), श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक कुमार तयाल के नाम में संपत्ति, जिसका परिसीमन इस प्रकार है: उत्तर— मै. बांके बिहारी, पूर्व— सुमेर चंद की कृषि भूमि, दक्षिण— वेद प्रकाश की कृषि भूमि, पश्चिम— सड़क	अनुसार संविदात्मक दरों पर	29.04.2021
अशोका हैंडलूम स्वामिनीः श्रीमती सुनीता रानी पत्नी अशोक कुमार तयाल वीपीओ—पसीना खुर्द रोड, ग्राम—सेवाह, तहसील—पानीपत, जनपद—पानीपत, हरियाणा—132103	कारखाना भूमि एवं भवन 3कं—12एम जो 72/148 अंश है उस भूमि का जिसका मापन 7कं—8एम है, जो खेवट सं. 1520, खसरा सं. 126/21/3(1—4) एवं खेवट सं. 1757 खसरा सं. 133/1/1 (6—4) से समाविष्ट है, जो पसीना खुर्द रोड, ग्राम—सेवाह, तहसील एवं जनपद—पानीपत 132103, हरियाणा में स्थित है, जिसका मापन 2169 वर्ग गज (विलेख के अनुसार), श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक कुमार तयाल के नाम में संपत्ति, जिसका परिसीमन इस प्रकार है: उत्तर— मैं. बांके बिहारी, पूर्व— सुमेर चंद	दिनांक 29.04.2021 के अनुसार संविदात्मक दरों पर	29.04.2021
लाल तयाल मकान सं. 832, सेक्टर–12, पानीपत, हरियाणा–132103	की कृषि भूमि, दक्षिण— वेद प्रकाश की कृषि भूमि, पश्चिम— सड़क	प्रभार इत्यादि के साथ	.,

www.readwhere.com

बेसिक :

स्थान : मुंबई

तारीख : 31.01.2022